

विशेष रिपोर्ट

बेस मेटल

सितम्बर 2022



एल्युमीनियम

• तांबा

• लेड

• जिंक



Moneywise. Be wise.

अगस्त 2022 में, जिंक को छोड़कर संभावित मंदी की चिंताओं के कारण औद्योगिक धातुओं में नरमी के रूझान के साथ कारोबार हुआ। एलएमई और एमसीएक्स में तांबे की कीमतों में लगातार पांचवें महीने गिरावट जारी रही और निकल की कीमतों में लगातार चौथे महीने गिरावट जारी रही क्योंकि मुद्रास्फीति से मुकाबले के लिए ब्याज दरों में बढ़ोतरी से विश्व स्तर पर मंदी की आशंका तेज हो गई है जिससे मांग में कमी की आशंका है जबकि बिजली की उच्च कीमतों के कारण यूरोप में स्मेल्टरों के बंद होने के कारण जिंक की कीमतों में लगातार दूसरे महीने बढ़त दर्ज की गई। तेजी से बढ़ती ब्याज दरें, रिकॉर्ड मुद्रास्फीति और लंबे समय तक ऊर्जा संकट इस विश्वास को जन्म दे रहा है कि विश्व अर्थव्यवस्था मंदी की ओर अग्रसर है जो धातु की मांग को भी कम कर सकती है।

उच्च कीमतों और गिरती मांग के कारण यूरोप में व्यापारिक गतिविधियों को 18 महीनों में सबसे बड़ा गिरावट का सामना करना पड़ा। रिपोर्टों के अनुसार, अत्यधिक मुद्रास्फीति के कारण यूरोप मंदी की आशंका का सामना कर रहा है। शीर्ष धातु उपभोक्ता चीन में आर्थिक विकास दूसरी तिमाही में तेजी से धीमा हो गया, जबकि कोविड के रिकॉर्ड मामलों पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक लॉकडाउन ने औद्योगिक गतिविधि और उपभोक्ता खर्च को प्रभावित किया है।



आउटलुक

मिले-जुले फंडामेंटल के कारण बेस मेटल की कीमतें अलग-अलग दिशाओं में कारोबार कर सकती हैं।

वैश्विक आर्थिक विकास की चिंताओं ने धातुओं की मांग को अधिक धूमिल कर दिया और यूरोप में उत्पादन में कटौती के कारण आपूर्ति की चिंताओं को पीछे छोड़ दिया। यूरोपीय संघ द्वारा भारी उद्योग में गैस की खपत पर प्रतिबंध लगाने की संभावना है, और ये मांग संबंधी चिंताएँ आपूर्ति में कमी के मुद्दों से अधिक हैं। यूरोप में चल रही आर्थिक तबाही विशेष रूप से उच्च ऊर्जा कीमतों के कारण है। रूस द्वारा इस क्षेत्र में तेल और गैस की आपूर्ति में कटौती के बाद यूरोप में ईंधन की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर चल रही हैं। कई एशियाई देशों में भी आर्थिक गतिविधियाँ नाजुक हैं। चीन की शून्य कोविड नीति और लागत दबाव ने व्यवसायों को नुकसान पहुंचाना जारी रखा है, जिससे कारखाने की गतिविधि में कमी आई। दूसरी ओर, चीन ने बुनियादी ढांचे और इलेक्ट्रिक वाहनों सहित विभिन्न क्षेत्रों के लिए अरबों युआन मूल्य के प्रोत्साहन सहायता की घोषणा की है। चीन की अर्थव्यवस्था में किसी भी तरह का बदलाव और अमेरिकी डॉलर में सुधार से बेस मेटल में खरीदारों के आकर्षित होने की संभावना है क्योंकि सीमित क्षमता और बिजली की उच्च लागत के कारण आपूर्ति की कमी कीमतों को अधिक बढ़ा सकती है।

फंडामेंटल

- अगस्त में अमेरिकी सेवा उद्योग पर एक रिपोर्ट के बाद इस विचार की पुष्टि हुई कि अर्थव्यवस्था मंदी में नहीं है जिससे डॉलर का बढ़ना जारी रहा, जबकि यूरो और दर-संवर्धनशील जापानी येन में गिरावट जारी रही।
- पेरू, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तांबा उत्पादक, की दो सबसे बड़ी खदानों के खराब प्रदर्शन के बाद जुलाई में तांबे का उत्पादन साल-दर-साल 6.6% गिरकर 195,234 टन हो गया।
- चीन के बांडेड गोदामों में तांबे का भंडार गिरकर 142,200 टन के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है।
- ब्लूमबर्ग न्यूज की रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन में तांबे की दिग्गज कंपनी माईक मेटल्स इंटरनेशनल लिमिटेड सरकार और वित्तीय संस्थानों से मदद मांग रही है क्योंकि लिक्विडिटी के मुद्दों ने उसे आयातित तांबे के लिए कुछ भुगतान में देरी करने के लिए मजबूर किया है।
- एक निजी क्षेत्र के सर्वेक्षण से पता चला है कि अगस्त में तीन महीनों में पहली बार चीन की फैक्ट्री गतिविधि में कमी आई है, जबकि लगभग 70 चीनी शहरों ने नए घरों की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है, जो कोविड-19 महामारी की शुरुआत के बाद से सबसे अधिक है।
- यूरोप में स्मेल्टर बंद होने से इस सर्दी में एल्युमीनियम क्षमता में 750,000 टन और जिंक उत्पादन में 150,000 टन की कमी आ सकती है। अतिरिक्त कटौती घाटे को अधिक बढ़ा सकती है जो मैक्वेरी का अनुमान है कि इस साल 70 मिलियन टन एल्युमीनियम बाजार में लगभग 800,000 टन और 40 लाख टन जिंक बाजार में 200,000 टन की कमी हो सकती है।
- फ्रांस का एल्युमीनियम डंकर्क उत्पादन में पांचवें हिस्से की कटौती करेगा और नोर्स्क हाइड्रो ने कहा कि वह खरखराव के बाद नॉर्वे में अपनी क्षमता का एक छोटा हिस्सा ऑफलाइन रखेगा।
- एएनजेड अनुसंधान ने ऊर्जा से संबंधित आपूर्ति की कमी और बढ़ती मांग के मुकाबले 2022 में मुख्य रूप से लोहे और स्टील को गैल्वनाइज करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली धातु के 750,000 टन की कमी का अनुमान लगाया है।




स्रोत : एसएमसी रिसर्च एवं रॉयटर्स

स्रोत : एसएमसी रिसर्च एवं रॉयटर्स

एल्युमीनियम

एल्युमीनियम




एमसीएक्स में एल्युमीनियम का साप्ताहिक चार्ट



एमसीएक्स प्लेटफॉर्म पर एल्युमीनियम वायदा पिछले हफ्ते बढ़कर 203.05 पर बंद हुआ। पिछले 2 महीनों से, कीमतों में 325.50 के रेजिस्टेंस स्तर से 202.25 तक गिरावट दर्ज की गई है। अब कीमतें 18 दिनों के मूविंग एवरेज 208.88 से नीचे कारोबार कर रही हैं। अब अगला तत्काल रेजिस्टेंस 208.00 पर है, और इसे स्तर से ऊपर बने रहने की स्थिति में 230/245 की ओर अच्छी बढ़त देखी जा सकती है। यदि यह 198 के तत्काल सपोर्ट स्तर से नीचे टूटती है तो यह क्रमशः 190/175 तक नीचे की ओर बढ़ सकती है। कुल मिलाकर एल्युमीनियम की कीमतों के अपने रेजिस्टेंस स्तर से नीचे जाने की उम्मीद है। इसलिए हम मौजूदा माह में कीमतों में बढ़ोतरी पर बिकवाली करने की सलाह देते हैं।

तांबा



एमसीएक्स में तांबा का साप्ताहिक चार्ट




एमसीएक्स प्लेटफॉर्म पर तांबा वायदा पिछले सप्ताह कम होकर 633.65 पर बंद हुआ है। अब कीमतें 670 के साप्ताहिक ट्रेड लाइन सपोर्ट के नीचे अच्छी तरह से बनी हुई हैं। अब तत्काल रेजिस्टेंस 686 पर है। यदि कीमतें 686 की तत्काल रेजिस्टेंस से ऊपर जाती है तो यह 710/735 की ओर बढ़ सकती है। यदि कीमतें 686 के रेजिस्टेंस स्तर से ऊपर बरकरार रहने में असफल रहती है, तो निकट भविष्य में नीचे की ओर 620/600 के स्तर की ओर जा सकती है। कुल मिलाकर कमोडिटी के अपने रेजिस्टेंस स्तर से नीचे जाने की उम्मीद है।

तांबा

लेड

लेड




एमसीएक्स में लेड का साप्ताहिक चार्ट



एमसीएक्स प्लेटफॉर्म पर लेड वायदा पिछले हफ्ते 174.20 पर बंद हुआ है। वर्तमान में कीमतें 18 दिनों के ईएमए स्तर 178.85 के नजदीक कारोबार कर रही हैं। मोमेंटम ऑसिलेटर स्टोकेस्टिक (14,3,3) अब नकारात्मक विचलन देख रहा है और छोटी से मध्यम अवधि के लिए नरमी का रुझान भी प्रदान कर रहा है। 50 दिनों का ईएमए स्तर 179.64 से नीचे बना हुआ है जो छोटी अवधि के आधार पर बिकवाली का संकेत देता है। अब 181 पर महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस देखा जा रहा है, इस स्तर से ऊपर कारोबार करने पर इस महीने में 188/195 की ओर तेजी देखी जा सकती है और यदि कीमतें 174 के सपोर्ट स्तर से नीचे बनी रहती हैं तो 168 एवं 162 की ओर क्रमशः नीचे तक जा सकती है।

जिंक

जिंक



एमसीएक्स में जिंक का साप्ताहिक चार्ट



एमसीएक्स प्लेटफॉर्म पर जिंक वायदा पिछले सप्ताह कम होकर 284.00 पर बंद हुआ है। वर्तमान में कीमतें 200 दिनों के ईएमए स्तर 300.97 से नीचे और साप्ताहिक स्तर पर कम होती सपोर्ट ट्रेड लाइन स्तर 297 से नीचे कारोबार कर रही हैं। अब तत्काल सपोर्ट 281.50 के नजदीक है। यदि कीमतें 281.50 के स्तर से नीचे टूटती है, तो नीचे की ओर 265/250 की ओर लुढ़क सकती है और यदि कीमतें तत्काल रेजिस्टेंस 305 के स्तर से ऊपर रहती है और स्थिर बनी रहती है, तो क्रमशः 320/335 की ओर बढ़ जाएगी।

For any queries, Contact:
Commodity Research Desk
Tel: +91-11-30111000, Ext: 683,684,625,630

SMC Research also available on Reuters

E-mail: smc.care@smcindiaonline.com

Corporate Office:
11/6B, Shanti Chamber,
Pusa Road, New Delhi - 110005
Tel: +91-11-30111000
www.smcindiaonline.com

Mumbai Office:
Lotus Corporate Park, A Wing 401 / 402, 4th Floor,
Graham Firth Steel Compound, Off Western
Express Highway, Jay Coach Signal, Goreagon
(East) Mumbai - 400063
Tel: 91-22-67341600, Fax: 91-22-67341697

Kolkata Office:
18, Rabindra Sarani, Poddar Court, Gate No-4,
5th Floor, Kolkata-700001
Tel.: 033 6612 7000/033 4058 7000
Fax: 033 6612 7004/033 4058 7004

एसएमसी ग्लोबल सिक्नोरिटीज लिमिटेड (जिसे एसएमसी कहा जाता है) का नियमन भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा किया जाता है और इसे ब्रोकिंग व्यवसाय, डिपॉजिटरी सेवाओं और संबन्धित सेवाओं करने का लाइसेंस प्राप्त है। एसएमसी ग्लोबल सिक्नोरिटीज लिमिटेड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, एमएसईआई (मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड) का रजिस्टर्ड सदस्य है और एम/एस एसएमसी कॉमोडिटी एवं डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड और मल्टी कर्मांडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया और भारत के अन्य कर्मांडिटी एक्सचेंजों का रजिस्टर्ड सदस्य है। इसकी सहयोगी एमसीएस स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड की सदस्य है। एसएमसी सीडीएसएल (CDSL) और एनएसडीएल (NSDL) के साथ डिपॉजिटरी भागीदार के रूप में भी रजिस्टर्ड है। एसएमसी के अन्य एग्रेसिभ सेबी और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मंचेंट बैंकर, पोर्टफोलियो मैनेजर के रूप में रजिस्टर्ड है। यह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में एएमएफआई (AMFI) में भी रजिस्टर्ड है।

एसएमसी ग्लोबल सिक्नोरिटीज लिमिटेड सेबी (रिसर्च एनालिस्ट) रेगुलेशन 2014 के तहत रिसर्च एनालिस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन संख्या INH100001849 के साथ रजिस्टर्ड संस्था है। एसएमसी ग्लोबल सिक्नोरिटीज लिमिटेड या इसके सहयोगियों को सेबी द्वारा अन्य किसी रेगुलेटरी एग्रेसिभ द्वारा सिक्नोरिटीज मार्केट/कर्मांडिटी मार्केट में कारोबार के लिए प्रतिबंधित/निलंबित नहीं किया गया है। रिपोर्ट में रिसर्च एनालिस्टों द्वारा व्यक्त की गई राय केवल सार्वजनिक रूप से प्राप्त सूचनाओं/इंटरनेट आंकड़ों/अन्य विश्वसनीय स्रोतों, जिन्हें सत्य माना जाता है, पर आधारित है। एसएमसी रिपोर्ट में व्यक्त राय या सामग्री को शुद्धता को लेकर कोई आश्वासन नहीं देता है और निवेशकों को सलाह दी जाती है कि निवेश के लिए कोई भी निर्णय करने से पहले बाजार की परिस्थितियों/जोखिमों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करें। रिसर्च एनालिस्ट, जिन्होंने इस रिपोर्ट को तैयार किया है, एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि इस रिपोर्ट में विशेष कर्मांडिटी के संदर्भ में व्यक्त किया गया विचार/राय उनके निजी स्वतंत्र विचार/राय है।

दिसक्लेमर: यह रिसर्च रिपोर्ट अधिकृत प्राप्तकर्ता को व्यक्तिगत सूचना के लिए है और इसका निवेशक के किसी निवेश, विधिक एवं कर संबंधी परामर्श से संबंध नहीं है। यह केवल प्राइवेट सक्कुलेशन एवं उपयोग के लिए है। यह रिपोर्ट विश्वस्त सूचनाओं पर आधारित है लेकिन यह पूरी तरह सही और पूर्ण है, ऐसा जरूरी नहीं और इस पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। रिपोर्ट के कन्टेन्ट के आधार पर कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। इस रिपोर्ट को एसएमसी से लिखित आज्ञा के बिना किसी भी रूप में नकल एवं किसी भी अन्य व्यक्ति को पुनः वितरण नहीं किया जाना चाहिए। इस सामग्री का कन्टेन्ट सामान्य है और यह न तो पूरी तरह से व्यापक है और न विस्तृत है। इस रिपोर्ट के आधार पर उठाये गये किसी कदम से होने वाली क्षति या नुकसान के लिए न तो एसएमसी और न इसका कोई संबंधी, सहायक, प्रतिनिधि, डायरेक्टर या कर्मचारी को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। यह कोई व्यक्तिगत अनुमोदन नहीं करता या किसी खास निवेश उद्देश्य, वित्तीय स्थिति या किसी व्यक्तिगत ग्राहक या कॉन्सोर्ट या सलाह की जरूरतों को लेकर नहीं चलता है। सभी निवेश जोखिमपूर्ण होते हैं एवं पिछला प्रदर्शन भविष्य के किसी प्रदर्शन को गारंटी नहीं देता है। निवेश की बैल्यू और उससे प्राप्त आमदनी एक निश्चित समय में उपलब्ध कुछ बड़े एवं सूक्ष्म कारकों के बदलाव पर निर्भर कर सकती है। निवेश का निर्णय लेते समय किसी भी व्यक्ति को अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए।

कृपया ध्यान रखें कि हम या हमारा कोई अधिकारी, सहायक, प्रतिनिधि, डायरेक्टर या कर्मचारी, जो भी इस रिपोर्ट को बनाने या भेजने में शामिल है उसकी (अ) समय-समय पर किसी भी कर्मांडिटीज में, जिनका इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है, खरीद या बिक्री, कोई भी पोझिशन हो सकती है और यह इस कर्मांडिटीज को खरीद या बिक्री कर सकता है या (ब) साथ ही साथ यह इन कर्मांडिटीज के किसी भी प्रकार के सौदों में और ब्रोकरेज या अन्य प्रकार के प्रतिकर में अथवा बाजार निर्माण में शामिल हो सकता है, (स) इस रिपोर्ट में दिए गये सुझावों और संबंधित सूचनाओं एवं विचारों के संदर्भ में इनका अपना कोई भी निहित स्वार्थ या विवाद हो सकता है। सभी विवादों का निपटारा अंतिम रूप से दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीन होगा।